

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/वैशाख 1, 1938	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 17]
No. 73]	DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/VAISAKHA 1, 1938	[N.C.T.D. No. 17]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस—II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

सं0फा0 8/52/2016/गृह पुलिस—II/2571.—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 8/52/2016/ गृह पुलिस—II/2520.2533 दिनांक 19.4.2016 के क्रम में एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राज्य बनाम मै. जी न्युज व इससे उत्पन्न अन्य मामलो के संचालन के मामले में जहां कहीं भी मामला लम्बित हो में श्री रियाज़ अहमद भट अधिवक्ता को भी विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिवक्ता को देय शुल्क यथासमय निर्धारित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से,
ओ. पी. मिश्रा, अति. सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 21st April, 2016

F. No. 8/52/2016/HP-II-2571.—In continuation of notification No. 8/52/2016/HP-II/2520-2533 dated 19.04.2016 and in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Government of National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Riaz Ahmad Bhat, Advocate also as Special Public Prosecutor to conduct the trial of case titled as State Vs M/s Zee News and other related matters wherever these matters are pending. The fee payable to Advocates to conduct case will be settled in due course.

By Order of Government of
National Capital Territory of Delhi,
O.P. MISHRA, Addl. Secy. (Home)

भूमि एवं भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

सं. एफ.12(153)/2015/भू.व.भ./योजना/997.—स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67-श.वि. दिनांक 14.2.1969 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एतद् द्वारा विकास क्षेत्र 148, 50 एवं 49 को नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार तुरन्त प्रभाव से अनधिसूचित करते हैं ।

विकास क्षेत्र 148 अधिसूचना संख्या एफ.16(2)/22/76-एम.पी./भू.व.भ. द्वारा दिनांक 12.3.1981 को अधिसूचित किया गया था, विकास क्षेत्र 49 एवं 50 अधिसूचना संख्या एफ.42(7)/66- भू.व.भ. द्वारा दिनांक 20.4.1967 को अधिसूचित किया गया था ।

अनुसूची

क्र.सं.	सैक्टर/क्षेत्र	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विवरण/सीमाएं	विकास क्षेत्र सं.	जोन
1	2	3	4	5	6
1.	जिला केंद्र और सामुदायिक केंद्र को छोड़कर पूर्ण रूप में सैक्टर-1 से 19 रोहिणी (पहले से अनधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर)	1600 हैक्टे.	•उत्तर और पूर्व में जी.टी. करनाल रेलवे लाइन । दक्षिण पूर्व में बाहरी रिंग रोड । •उत्तर पश्चिम में विकास क्षेत्र सं. 179 की सीमा । दक्षिण पश्चिम में औद्योगिक क्षेत्र की सीमा ।	148	एच(पार्ट)
2.	सीमाओं और क्षेत्र के अनुसार जिला केंद्र और सामुदायिक केंद्र को छोड़कर पूर्ण रूप में विकास क्षेत्र सं. 50 (पहले से अनधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर)	266 हैक्टेयर (665.6 एकड़)	•रोहतक रोड और बाहरी रिंग रोड के जंक्शन से शुरू होकर, उसके बाद रोहतक रोड के साथ पूर्व की ओर 2900 तक बढ़ते हुए, उसके बाद दक्षिण की ओर 6160 बढ़ते हुए नजफगढ़ नाले पर मिलना, उसके बाद नजफगढ़ नाले के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर 590' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद नजफगढ़ नाले के पार दक्षिण की ओर 2790' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद पश्चिम की ओर 2350' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद बाहरी रिंग रोड के साथ उत्तर की ओर 8950' आगे बढ़ते हुए, इस प्रकार मूल शुरूआती स्थल पर मिलना ।	50	जी(पार्ट)
3.	सीमाओं और क्षेत्र के अनुसार जिला केंद्र और सामुदायिक केंद्र को छोड़कर पूर्ण रूप में विकास क्षेत्र सं.- 49 (पहले से अनधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर)	457 हैक्टे. (1128.80 एकड़)	•बाहरी रिंग रोड और नजफगढ़ नाले के जंक्शन से शुरू होकर, उसके बाद रोहतक रोड और बाहरी रिंग रोड के जंक्शन पर मिलते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए 8950', उसके बाद रोहतक रोड के साथ पश्चिम की ओर 8800', आगे बढ़ते हुए, दक्षिण की ओर 300' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद पूर्व की ओर 2930' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद दक्षिण की ओर 7050' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद पूर्व में 4100' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर 2350' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद	49	जी(पार्ट)

			उत्तर पूर्व की ओर 1760' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद दक्षिण की ओर 1170' आगे बढ़ते हुए, उसके बाद नजफगढ़ नाले के साथ पूर्व की ओर 5870' आगे बढ़ते हुए, इस प्रकार मूल शुरुआती स्थल पर मिलना ।		
--	--	--	--	--	--

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
आलोक शर्मा, उप सचिव
एल. एव बी. विभाग,
रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st April, 2016

No. F. 12(153)/2015/L&B/PLG./997.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with notification of the Government of India, Ministry of Health Family Planning and Urban Development No. 18011(28)/67-UD dated the 14th February 1969, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby de-notifies development areas numbers 148, 50 and 49 as per details given in the schedule below, with immediate effect.

The development area number 148 was notified vide No.F.16(2)/22/76-MP/L&B dated the 12th March, 1981, Development areas numbers 49 & 50 was notified vide No.F.42(7)/66-L&B dated the 20th April, 1967.

SCHEDULE

S. No.	Sector/Area	Area	Description/Boundaries	Development Area No.	Zone
1	2	3	4	5	6
1.	Sec.-1 to 19 Rohini (excluding the already denotified area) in Toto excluding the district centre and community centre.	1600 hact.	<ul style="list-style-type: none"> GT Karnal Rly Line in the North & East. Outer Ring Road in South East. Limit of Development Area No. 179 in North West. Boundary of Industrial area in South West. 	148	H (Part)
2.	Development area no.-50 (except already denotified area) in Toto excluding the district centre & community centre as per the boundaries and area.	266 hact. (665.6 acre)	<ul style="list-style-type: none"> Starting from the junction of Rohtak Road and Outer Ring Road, then proceeding 2900' towards East along with Rohtak Road, then proceeding 6160' towards South meeting the Najafgarh drain, then proceeding 590' towards South West along Najafgarh drain, then 	50	G (Part)

			<ul style="list-style-type: none"> proceeding 2790' towards South across Najafgarh Drain, then proceeding 2350' towards West, the proceeding 8950' towards North along Outer Ring Road thus meeting the original starting point. 		
3.	Development area no.-49 (except already denotified area) in Toto excluding the district centre & community centre as per the boundaries and area.	457 hact. (1128.80 acre)	<ul style="list-style-type: none"> Starting from the junction of Outer Ring Road, and Najafgarh drain, then proceeding 8950' towards North meeting junction of Rohtak Road and Outer Ring Road, then proceeding 8800' towards West along Rohtak Road, then proceeding 300' towards South, then proceeding 2930' towards East, then proceeding 7050' towards South, then proceeding 4100' towards East, then proceeding 2350' towards South East, then proceeding 1760' towards North East, then proceeding 1170' towards South, then proceeding 5870' towards East along Najafgarh drain thus meeting the original starting point. 	49	G (Part)

By Order and in the Name of the Lt.Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

ALOK SHARMA, Dy. Secy.

L&B Dept. GNCTD